

हमने अपने **last lesson** में समय को **English** में कैसे **express** करें, यह सीखा था। समय के साथ साथ एक जगह जहाँ पर हम **English** बोलते समय थोड़ा **nervous** हो जाते हैं, वो है किसी को **direction** बताना या किसी से **direction** पूछना।

अब आपका **question** होगा कि आजकल तो सबके पास **smart phones** हैं, **google map** भी है तो **direction** पूछने की क्या जरूरत है। पर आपने भी यह **experience** किया होगा कि **map** की **help** से भी हम बहुत बार अपनी **destination** तक नहीं पहुँच पाते और हमें किसी से **help** लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसी **situation** भी आ जाती है जब सामने वाले व्यक्ति या **google map** में **use** किए गए **words** हमें समझ नहीं आते। इसलिए आज के **lesson** में हम सीखेंगे कि **direction** कैसे पूछा जाए और बताया जाए।

सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी **place** तक पहुँचने के लिए किस तरह से **questions** पूछे जाए। उससे पहले एक और बात तो जानना जरूरी है, जो कि किसी भी **conversation** के लिए बहुत ही आवश्यक है, कि **question** की शुरुआत कैसे की जाए।

अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने **question** का **answer** अच्छे से मिले तो जरूरी है कि **बात को greeting से शुरू करें।** एक **example** देखिये -

Excuse me, could you help me?

Hello! May I ask for some help? I need to get to the TV Tower

**अपनी conversation को “thank you” और “have a nice day” से समाप्त करें।**

**आप अपने questions इन phrases से भी शुरू कर सकते हैं -**

**Excuse me.....**

**Excuse me? Where is the nearest sweet shop?** (क्षमा करें? सबसे पास की मिठाई की दुकान कहाँ है?)

Sorry to bother you...

**Sorry to bother you, but would you mind showing me the way to the post office?** (आपको परेशान

करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं?)

May I ask...?

**May I ask where the Marriott hotel is?** (क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैरियट होटल कहाँ है?)

Could you please...?

**Could you please point me in the direction of the main road?** (क्या आप कृपया मुझे मुख्य सड़क की दिशा में बता सकते हैं?)

I am (I'm) lost.

**Excuse me? I'm lost. Could you please help me find the metro station?** (क्षमा कीजिय? मैं खो गया हूँ।

क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन खोजने में मदद कर सकते हैं?)

This is my first time in the city.

**May I ask you a question? This is my first time in the city.** (क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? शहर

में यह मैं पहली बार आया हूँ। )

आप कुछ इस तरह भी **questions** पूछ सकते हैं -

How do I get to (place)?

Which road should I take to get to (place)?

In which direction is the nearest (Gas Station / Shopping Mall etc.)

What is the quickest route to (place)?

Can you show me which way to go using the map?

Can I follow you?

Could you please guide me?

Where is (place)?

What direction should I take?

**अच्छा होगा अगर आप अपने questions को modal verbs (can, could, may) से start करें।**

**अब अगर आपको direction बतानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी vocabulary बढ़ानी पड़ेगी।**

**सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसे verbs जिनका use direction बताने में किया जाता है -**

Walk along/walk straight down

Turn left/right

Go around/over/under

Make a left/right turn

Head to

Take the first/second left/right turn

Continue down/Follow

**कुछ prepositions का use भी किया जा सकता है जैसे -**

**Beside** - के बगल में (on the side of something else)

**The Magical Theatre is beside the Marriott hotel.** (मैजिकल थियेटर मैरियट होटल के बगल में है।)

**Next to** - के पास (to the side of, similar to "beside" but can be used if there's nothing in between)

**The Marriott hotel is next to the Magical Theatre.** (मैरियट होटल मैजिकल थियेटर के पास में है।)

**Near - पास (close, not far)**

**The Marriott hotel is near the gas station.** (मैरियट होटल गैस स्टेशन के पास है।)

**To the left/right of - दाहिनी ओर, बाएं ओर**

**The post office is to the right of the corner store.** (पोस्ट ऑफिस कोने की दुकान के दाईं ओर है।)

**Between - बीच में (to have someone or something on each side)**

**The Magical Theatre is between the Marriott hotel and the gas station.** (मैजिकल थिएटर मैरियट होटल और गैस स्टेशन के बीच है।)

**Behind - पीछे (being at someone or something's back)**

**The gas station is just behind the metro station.** (मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे गैस स्टेशन है।)

**In front of - सामने (if something is in front of you, it's in a position where you can see it if you look forwards)**

**When you turn a corner, you'll find yourself in front of the gas station.** (जब आप कोने में मुड़ते हैं, तो आप खुद को गैस स्टेशन के सामने पाएंगे।)

**Across from - रोड के दूसरी तरफ (on the other side of a road, river, etc.)**

**The Marriott hotel is across from the Big Bazaar.** (मैरियट होटल बिग बाजार के दूसरी ओर है।)

**At the crossroads/intersection - जहाँ पर रोड मिलती हो (a place where two roads meet (especially when one is a major street))**

**You'll see a big mall at the intersection of 6th Avenue and West 51st Street.** (आपको 6th एवेन्यू और वेस्ट 51 वीं स्ट्रीट के चौराहे पर एक बड़ा मॉल दिखाई देगा।)

**किसी को रास्ता बताते समय इन बातों का ध्यान रखें**

**1) Direction** बताते समय हर **route** को अलग अलग करने के लिए इस तरह के **words (transitions)** का use करें - **They are called sequencers.**

after that (उसके बाद)

then (फिर)

next (उसके बाद)

when you get to...go... (जब तुम पहुंचते हो..... जाओ)

finally (अंत में)

**2) कही पर पहुँचने का अनुमानित समय या यात्रा करने का समय बताये -**

It's just around the corner (not far). (यह बस पास में ही है। (दूर नहीं))

It's not far. (यह दूर नहीं है।)

It's a bit of a way. (it takes a while) (यह थोड़ा दूर है। (वहां पहुँचने में थोड़ा time लगेगा।)

It's about a five minute walk. (यह पैदल लगभग 5 minute की दूरी पर है।)

**3) हम अक्सर किसी को directions बताते समय आसपास स्थित landmarks के बारे में बताते हैं जिससे उन्हें अपने destination तक पहुँचने में आसानी होती है। ये landmarks - bank, bus stop, metro station, flyover आदि हो सकते हैं।**

You will see a large clock on the right. (आप अपने दाहिने एक बड़ी से घड़ी देखोगे।)

You will pass a gas station. (आप एक gas station से गुजरोगे।)

**4) कभी कभी warnings भी दें जैसे -**

Stay in the right lane. (दाहिनी lane में ही रहें।)

It's a very busy road. (यह बहुत व्यस्त/ भीड़ भाड़ वाली रोड है।)

There might be construction. (वहां शायद construction/ निर्माण कार्य चल रहा हो।)

If you pass the ... you went too far. (अगर आपने वह cross किया ..... आप बहुत दूर चले जाते।)

**5) हमेशा imperative sentences का use करें**

Go down this street!  
Go straight and up the stairs!  
Go down the escalators!

किसी को रास्ता बताने का एक **example** देखते हैं -

**Cross the junction and keep going for about 1 kilometer.** (junction को cross करें और लगभग 1 किलोमीटर चलें।)

At the end of the road you will see a **roundabout**. (रोड के अंत पर आप एक **गोलचक्कर** देखेंगे।)

**Turn left when you see a roundabout.** (जब आप गोलचक्कर देखें तो बाएं मुड़ जाएं।)

**Take the third road on the right and you will see the bank on the left.** (दाहिनी तरफ की तीसरी रोड लें और आपको बाएं तरफ बैंक दिखेगा।)

**The bank is in between the chemist and KFC.** (बैंक दवा की दुकान और KFC के बीच में है।)

It is at the place where road is **forking**. (यह उस स्थान पर है जहां से सड़क दो भागों में **विभाजित (दोराहा)** होता है।)

रास्ता बताने के बाद यह भी सुनिश्चित कर लें कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आया की नहीं। इसके लिए आप पूछ सकते हैं -

**Did you get all that?** (क्या आपको पता चला?- यह इंग्लिश **sentence** का **exact translation** नहीं है।)

अगर आपको रास्ता नहीं पता तो अनुमान मत लगाइए (किसी को गलत रास्ता ना बताए) और ना ही सिर्फ सिर को हिला कर या बिना कुछ बोले आगे ना बढ़े। आप एक **sentence** में उन्हें बता सकते हैं कि आप वह जगह नहीं जानते। आप इस **phrases** का **use** कर सकते हैं -

**I'm sorry, I'm not from here.** (मुझे माफ़ कीजिये, मैं यहाँ का नहीं हूँ।)

I'm afraid I can't help you. (I'm afraid I can't help you. (मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।))

आप उन्हें दूसरे **solutions** भी दे सकते हैं -

You could ask the bus driver. (आप bus driver से पूछ सकते हैं।)

Ask the shopkeeper. (दुकानदार से पूछ लें।)

अब **lesson** के **end** में कुछ **Directions Vocabulary** भी जान लें

**Roundabout** - गोल चक्कर

**Sidewalk** - फुटपाथ

**Zebra crossing** - सड़क पर बनी चौड़ी सफ़ेद पट्टियाँ

**Traffic lights** - लाल बत्ती

**street/ road** - सड़क

**corner** - कोने का/ मोड़

**sidewalk** - पगडण्डी/ फुटपाथ

**highway** - हाइवे

**crossroad** - चौराहा

**junction** - जंक्शन/ जोड़ रास्ता

**T-junction** - जहाँ से सिर्फ़ तीन रास्ते निकलते हो

**signpost** - दिशासूचक/ संकेत

**walkway** - पैदल रास्ता

**intersection** - चौराहा

**bridge** - पुल

**freeway** - फ्रीवे/ रास्ता

**lane** - गली

**overpass** - हवाई पुल

**alley** - सकरी गली

tunnel - सुरंग

### Tip of the Day

हिंदी के मुहावरों को **English** में जानें और उन्हें **use** करें

1. ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है - **Honesty is the best policy**
2. जल्दी करना शैतान का काम होता है - **Hurry spoils curry or haste makes waste**
3. सेहत सबसे बड़ा धन है - **Health is wealth**
4. ऊंची दुकान, फीके पकवान - **Great boast small roast**
5. आलसी का सिर, शैतान का घर - **Idle man's brain is the devil's workshop**
6. अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से क्या होता है - **It is no use blowing one's own trumpet**
7. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत - **It is no use crying over spilt milk**
8. एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती - **It takes two to make a quarrel**
9. जो गरजता है- वो बरसता नहीं है - **A barking dog seldom bites**
10. थोथा चना बाजे घना - **Empty vessels make much noise**
11. अंधों में काना राजा - **A figure among ciphers**
12. एकता में शक्ति - **Unity is strength**
13. जहाँ चाह वहाँ राह - **Where there is a will, there is a way**
14. मुँह में राम बगल में छुरी - **A wolf in sheep's clothing**
15. समझदार को इशारा काफी है - **A word to the wise**
16. जहाँ निराशा वहाँ आशा - **Every cloud has a silver lining**
17. अंत भला तो सब भला - **All is well that ends well**
18. बहती गंगा में हाथ धोना - **Make hay while the sun shines**
19. नौ नकद, न तेरह उधार - **A bird in hand is worth two in the bus**